

ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०) आर्यावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ

जल संबंधी सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०ए०स०सी०/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०डब्ल्यू०ए०स०ए०म०को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदितका जाती है। आई०ए०स०ए० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाना है।

1. तैयारी की तारीख.....
ग्राम सभा ने अनुमोदन की तारीख.....
डी०डब्ल्यू०ए०स०ए०म० को प्रस्तुत किये जाने की तारीख.....
2. ग्राम का नाम..... **बरवाकला**
ग्राम पंचायत का नाम..... **बरवाकला**
विकास खण्ड का नाम..... **जौतनबां**
जनपद का नाम..... **महाराजाठोड़ा**
राज्य का नाम..... **उत्तर प्रदेश**
ग्राम जनगणना कोड..... **2011/183605**
यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम
- I. ग्राम पंचायत संकल्प
3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा..... सख्त्या, मवेशी कुड़ो को और..... सख्त्या, कपड़ा धोने/ स्नान करने के खनों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष..... तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये एफ०ए०च०टी०सी० प्रदान करना।
हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अतग्राम जल आपूर्ति अवसरवचना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं; हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हे संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदे जल की व्यवस्था करेंगे और मीठे/साफ जल को बचायेंगे।
यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी/ लागत का प्रतिशत और रख-रखाव लागत के पश्चातित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र पी०ए०च०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०ए०स० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II- ग्राम पंचायत और /या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०उ०ब्ल्यू०ए०स०सी०/पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
- 4- कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
ग्राम पंचायत और/ या उप-समिति.....
समिति को क्या कहा जाता है.....
समिति के अध्यक्ष का नाम.....
लिंग.....
आयु.....

क०स०	सदस्य का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
1	पुरुष	महिला	५५	General	पुरुष
2	देवेंद्र प्रादिव	पुरुष	५०	O.B.C	पुरुष
3	मीर्झमद सफाद	पुरुष	३५	O.B.C	पुरुष
4	श्री भूति किसमाता	महिला	४५	O.B.C	पुरुष
5	मीरुन्द सिंह	पुरुष	६०	General	पुरुष

6	लीटर विनाय	पुरुष	50	S.C	
7	लीटर गति गति	महिला	62	O.B.C	
8	लीटर किस्ता	महिला	38	O.B.C	
9	गूरा साराज	पुरुष	42	O.B.C	
10	मिश्र पासवान	पुरुष	67	O.B.C	
11	अमरा पासवान	पुरुष	48	OBC	
12	सोनिल इमा	पुरुष	39	OBC	
13	सफरा मिला	पुरुष	50	OBC	
14				OBC	
15				OBC	

III- सामान्य विवरण

6-

2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पचायत/आगनवाली रिकार्ड के अनुसार
जनसंख्या	जनसंख्या
परिवारों की संख्या	परिवारों की संख्या
महिलाओं की संख्या	महिलाओं की संख्या
पुरुषों की संख्या	पुरुषों की संख्या
बच्चों की संख्या	बच्चों की संख्या
एफ०एच०टी०सी० की संख्या	एफ०एच०टी०सी० की संख्या

7- जनसंख्या अनुमान

मध्यवर्ती चरण — वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि
किलोमीटर/दिन के ०एल०डी० अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि
.... किलोमीटर/दिन के ०एल०डी०

8- वर्तमान मवेशी संख्या पशुपालन रिकार्ड.....

9- कृषि फसल पैटर्न रक्रीफ, रबी

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना	✓	✓
धान	✓	
मक्का	✓	
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10- औसत जल वर्षा मिमी० में 13.11.....

स्थलाकृति समतल, ढलान, आदि समतल

IV- स्थिति विश्लेषण

12- क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं नहीं

13- ग्राम कार्यगयोजना के साथ मानचित्र संलग्न करे

13- क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं नहीं

ग्राम कार्यगयोजना के साथ मानचित्र संलग्न करे

14-

क्र० स०	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ०एच०टी०सी० उपलब्ध है?	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है?	सेख्ता गढ़ो की उपलब्धता? हाँ / नहीं
---------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

1	स्कूल	जाहीः	जाहीः	जाहीः
2	आगनवाडी	"	"	"
3	स्वास्थ्य केन्द्र	"	"	"
4	ग्राम पचायत भवन	"	"	"
5	अन्य	"	"	"

पानी की कुल वैनिक आवश्यकता:

15- पानी की वर्तमान आवश्यकता जनसंख्या दर के ० एल० डी०

म्बेशियो के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता के ० एल० डी०

म्बेरी कुड़ो की आवश्यक संख्या.....

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर के ० एल० डी०

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसेख्या दर के ० एल० डी०

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16- गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति

17-आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियो, रेल गाड़ियो आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। **जाहीः**

18-पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करनेका इतिवृत्त **हौं**

19- जल जनित रोगों का इतिवृत्त **हौं**

पानी की गुणवत्ता

20- फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखे

21- सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22- जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता स्रोत का ना अवस्थिति

स्रोत	मापदण्ड	तरीका	परिणाम
	गंदगी	दृश्य तुलना	
	पीएच	पटटी रंग तुलना	
	पूर्ण लवणता	टिटीमेटिक विधि	
	पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेटिक विधि	
	क्लोराइड	टिटीमेटिक विधि	
	अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
	फासफेट	दृश्य रंग तुलना	
	अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
	आयरन	दृश्य रंग तुलना	
	नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
	फलोराइड	दृश्य रंग तुलना	
	आर्सेनिक हाट स्पाट में	दृश्य रंग तुलना	

कपडे धोने/ स्नान करने का स्थान

- 23- यह समावना है कि गांव के कुछ गरीब डलाको में कपडे धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपडे धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं

अनस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी

स्रोत स्थायित्व

- 24- भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल स्थिर्ज सरचना है? हाँ/नहीं हाँ
- 25- गंव में उन मौजूदा जल भड़ारों की सूची जिनका काया कल्प/मरम्त कार्य किया जाना आवश्यक है।
गंदे जल का प्रबन्धन
- 26- उत्पन्न गंदा जल जल आपूर्ति का 65 प्रतिशत के ०एल०डी० अलग-अलग सोख्ता गड्ढो वाले परिवारों की संख्या
उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोख्ता गड्ढो की आवश्यकता है
आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढो की संख्या
क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? हाँ / नहीं हाँ
यदि हाँ तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है हाँ
यदि नहीं तो गंदे जल के प्रबन्धन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

III- जल आपूर्ति योजना

- 27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ०एच०टी०सी० प्रदान किए जाएंगे
- * अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन०आर०डी०डब्ल्य०पी० के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेटोफिटिंग
 - * पूर्ण हो चुके आर० डब्ल्य०एस० की रेटोफिटिंग ताकि इसे जे०जे०एम० के अनुकूल बनाया जा सके
 - * निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल /स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातलीय जल वाले गावों में एस०वी०एस० ✓
 - * शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गावों में एस०वी०एस०
 - * वाटर ग्रिड/झेव्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस०वी०एस० ✓
 - * मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी०डब्ल्य०एस० जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं।
- 28- अभिनिर्धारित जल स्रोत **समुदाय उपार्थकनीकी**-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना **नियंत्रण स्वं भूमि उपावेदित** इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि
को सौंप दी जाएगी। वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी0एच0ई0डी0 / आर0डब्ल्यू0एस0
योजना की लागत DPR के अनुसार भारत सरकार का हिस्सा।
राज्य सरकार का हिस्सा। ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा।

आधिकारक 10%.

व्यक्तिगत/घरेलू अंशदान वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क ५०-१०० व्यक्तिगत/घरेलू
मासिक जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क ५०-१०० कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित
पी0डब्ल्यू0एस0.

III- मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका मे उन सभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल
सम्बन्ध है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	सभावित गतिविधियां जो शुल्क की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवा वित्त आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, डेरेनेज सिस्टम आदि।	राज्य विटा ✓
स्वच्छ भारत मिशन एस0बी0एम0-जी0	प्रजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, सोख्ता गड्ढे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तलछट तालाब आदि।	रतामिठ निधि ✓
एम0जी0एन0आर0ई0जी0एस0	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन एन0आर0एम0 घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियां	अनुनवण रखाता से VWSC ✓
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग0डब्ल्यू0एम0पी0	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर0डब्ल्यू0एच0 / कृत्रिम पुर्नमरण, जल निकायों का निर्माण / वृद्धि आदि	
जल भण्डारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बडे जल भण्डारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर0के0वी0वाई0	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	
स्थानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पी0एम0के0एस0वाई0	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूख्म-सिंचाई का प्रावधान, एक्टीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नजनन, वाटरशेड विकास आदि।	
स्थानमंत्री कौशल विकास योजना पी0एम0के0एस0वाई0	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर0डब्ल्यू0एस0 योजनाओं के लिए	✓

		आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रणिकाश आदि	<input checked="" type="checkbox"/>
समग्र शिक्षा	मनव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	<input checked="" type="checkbox"/>
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	झजला क्लोक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि डी०एम०ए०फ०	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम०पी०एल०ए०डी०	सार्थकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एम०ओ०एस०पी०आई०	अत ग्राम अवसरचना	
एम०एल०ए०एल०ए०डी०	राज्य	अत ग्राम अवसरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुदान/जनजातीय उपयोजना टी०एस०एस०	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अत ग्राम अवसरचना	
दानदाता/प्रायोजक			<input checked="" type="checkbox"/>

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

पी०एच०ई०डी० / आर०डल्प०एस० विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई०एस०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् घी०डल्प०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष

ग्राम पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नम्बर

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नम्बर

1

2

3

4

5

प आपरेटर का नाम और फोन नम्बर